



HAMIRPUR POLICE



:: जुआ खेलते 05 जुआरी गिरफ्तार, मौके से 5100 रुपए बरामदः

थाना जरिया पुलिस द्वारा ग्राम जरिया में सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। व अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 246/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम व धारा 188 ipc में नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण

1. शैलेन्द्र पुत्र रामरूप उम्र करीब 20 वर्ष
2. नरेश पुत्र किशोरीलाल वर्मा उम्र करीब 21 वर्ष
3. धीरेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र तुलसीदास उम्र करीब 34 वर्ष
4. भगवानदास पुत्र परसी कुशवाहा उम्र करीब 35 वर्ष
5. शमशेर अहमद पुत्र रज्जू खाँ उम्र करीब 50 वर्ष

समस्त नि0गण ग्राम जरिया थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी -

मालफड 3600 रूपये जामातलाशी 1500 रूपये व 52 अदद ताश पत्ते

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 रावेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 दारा सिंह
3. का योगेन्द्र पाल
4. का अनिल कुमार राजपूत





HAMIRPUR POLICE



::पैदल गस्त/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों चेकिंग एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत जनजागरूकता अभियान::

दिनांक 18-10-2020 को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल के साथ बैरियर,पैट्रोल पम्प,अंतर्जनपदीय बॉर्डर, ग्राम एवं कस्बों में पैदल गस्त किया गया इस दौरान, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की गई एवं मिशन शक्ति अभियान का जनमानस में प्रचार-प्रसार करते हुए छात्राओं एवं महिलाओं को 1090 वूमेन पावर लाइन ,181 महिला हेल्पलाइन ,1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस सहायता, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी तरह की समस्या पर इन हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया व जनमानस को त्यौहार के दृष्टिगत त्यौहार के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों से जनता को अवगत कराया गया साथ ही चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुल 40 व्यक्ति बिना मास्क लगाए पाये गये। उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 4600/- रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया एवं जनमानस को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया साथ ही यातायात नियमों के उलंघन में 57 वाहनों का ई-चालान किया गया।

